

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज- दिनांक- जून 11, 2021

***यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग*-**

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 160 वाहनों का चालान किया गया। व 02 वाहनो से 1000/- रुपया वसूला गया।

***कोरोना महामारी के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर *मास्क न लगाने वाले कुल- 14 व्यक्तियों से 14000/- रुपये शमन शुल्क* वसूला गया।

***शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 44 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

***आर्म्स अधिनियम में की गयी कार्यवाही*-**

***थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** अभियुक्त हिमान्शु पुत्र राजू कन्नौजिया नि0 मिया मोहल्ला थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 01 अदद नाजायद चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-217/21 धारा-4/25 आर्म्स अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** अभियुक्त बिजली उर्फ यूसुफ अन्सारी पुत्र अयूब सा0 वार्ड नं0 8 सिसवा बाजार थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज के कब्जे से 01 अदद तमन्चा 12 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-101/21 धारा-3/25 आर्म्स अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही*-**

***थाना सिन्दुरिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** अभियुक्त पंकज जायसवाल पुत्र चुल्हाई नि0 नरायनपुर थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी अवैध देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-51/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***विवेचनाओं का निस्तारण*-** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-27 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 10/11-06-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 47 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।

